



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र 1933 (श0)
(सं0 पटना 89) पटना, सोमवार, 28 मार्च 2011

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं
24 मार्च 2011

एस0 ओ0 21, दिनांक 28 मार्च 2011—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पंथ से भी परामर्श के पश्चात् बिहार-राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1 (ब) के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची-1 (ब) के स्तंभ-2 में उल्लेखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर प्रायोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1 (अ) स्तंभ-2 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1 (अ) के स्तम्भ 4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960=100)
जुलाई 2010	178	4.63X4.93	4 0 6 3.0 1
अगस्त 2010	178	4.63X4.93	4 0 6 3.0 1
सितम्बर 2010	179	4.63X4.93	4085.83
अक्टूबर 2010	181	4.63X4.93	4131.48
नवम्बर 2010	182	4.63X4.93	4 1 5 4.3 1
दिसम्बर 2010	185	4.63X4.93	4 2 2 2.7 9
योग:	—	2 4 7 2 0.4 3	4 1 2 0.0 7
औसत:	2 4 7 2 0.4 3 ÷ 6 = 4 1 2 0.0 7		4 1 2 0.0 7

अनुसूची-1 (ब)

1. अनुसूचित नियोजन का नाम- घरेलू कामगार, अधिसूचना संख्या-996, तिथि- 10 मार्च 2010

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि (अकुशल श्रेणी)	मूल न्यूनतम मजदूरी + भी०डी०ए० 01 अक्टूबर 2010 (रुपये में)	भी०डी०ए० प्रभावी की तिथि 01 अप्रैल 2011 (रुपये में)	दि० 01 अप्रैल 2011 को कुल मजदूरी (3+4) (रुपये में)
1	2	3	4	5
1	बरतन धोना (01 घंटा)	337.00+21.00=358.00	16.00	374.00 प्रतिमाह
2	कपड़ा धोना/बरतन धोना (01 घंटा)	337.00+21.00=358.00	16.00	374.00 प्रतिमाह
3	बरतन धोना/कपड़ा धोना एक हजार स्काव्यर फीट में पोछा लगाना (01 घंटा)	337.00+21.00=358.00	16.00	374.00 प्रतिमाह
4	कपड़ा धोना/बरतन धोना/पोछा लगाना एवं बच्चों की देखभाल करना (08 घंटा)	2691.00+146.00=2837.00 प्रतिमाह	150.00	2987.00 प्रतिमाह
5	कपड़ा धोना/बरतन धोना पोछा लगाना/बच्चों की देखभाल करना /बच्चों को स्कूल पहुँचाना एवं वापस लाना तथा अन्य घरेलू विविध कार्य करना। (08 घंटा)	2691.00+146.00=2837.00 प्रतिमाह	150.00	2987.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2010 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2011 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं० 5/एम०डब्ल्यू-401/07 श्र०सं०-829)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गरीब साहु,

सरकार के अपर सचिव।

24 मार्च 2011

एस0 ओ0 22, एस0 ओ0 21, दिनांक 28 मार्च 2011 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

(सं0 5/एम0डब्लू0-401/07 श्र0सं0-830)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गरीब साहु,

सरकार के अपर सचिव ।

The 24th March 2011

S.O. 21, dated 28th March 2011—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948) , read with the clause (B) of sub section (1) of section-5 of the said act and also consulting the Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for variable dearness Allowance in the Minimum Rate of Wages fixed / revised for the different categories of employees employed in the employment mentioned in column 02 of schedule 1 (B) here to appended for the month shown in column 2 of the said schedule shall be shown in column 04 of the schedule 1 (A) for the purpose of clause (d) of section 02 of the said Act.

SCHEDULE -1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2001=100)	Link Factor Change for base Year	Changed Index No. for base year (1960=100)
July 2010	178	4.63X4.93	4 0 6 3.0 1
August 2010	178	4.63X4.93	4 0 6 3.0 1
September 2010	179	4.63X4.93	4085.83
October 2010	181	4.63X4.93	4131.48
November 2010	182	4.63X4.93	4 1 5 4.3 1
December 2010	185	4.63X4.93	4 2 2 2.7 9
Total	—	2 4 7 2 0.4 3	
Average	2 4 7 2 0.4 3 ÷ 6 = 4 1 2 0.0 7		4 1 2 0.0 7

SCHEDULE -1 (B)

1- Name of Employment :- Domestic Workers

Notification No:- 996, date:- 10th March 2010

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	Basic Minimum Wage+ V.D.A 1st October 2010 (In.Rs.)	V.D.A Effective date- 1st April 2011	Total wage from 1st April 2011 (3+4)
1	2	3	4	5
1	Washing the utensils (One hours)	337.00+21.00=358.00	16.00	374.00 per month
2	Washing the clothes/ washing the Utensil (One hours)	337.00+21.00=358.00	16.00	374.00 per month

3	Washing the clothes/ washing the utensil house keeping (A. House of 1000 Sq. ft.) (One hours)	337.00+21.00=358.00	16.00	374.00 per month
4	Washing the cloths/ washing the utensils House Keeping and looking after the children (Eight hours)	2691.00 +146.00= 2837.00	150.00	2987.00 per month
5	Washing the cloths/ washing the utensils House Keeping and looking after the children/ and taking to school and back other miscellaneous domestic works.(Eight hours)	2691.00 +146.00= 2837.00	150.00	2987.00 per month

These rates of variable dearness Allowance will be based on the average of all India Consumer price index on which the variable Dearness Allowance has been fixed / revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employment and will be deemed as variable Dearness Allowance components . But even it the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised .The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of July—December, 2010 payable at the aforesaid rates from April, 2011 and there after increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of all India Consumers Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No. 5/M.W.- 401/07 L&R - 829)

By order of the Governor of Bihar,
GARIB SAHU,

Additional Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 89-571+150-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>